

## Padma Shri



### SMT. KALEESHABI MAHABOOB

Smt. Kaleeshabi Mahaboob and her husband Sheik Mahaboob Subhani both are Nadhaswaram Vidwans. They both are descendants of musical families.

2. Born on 20<sup>th</sup> December, 1958, in Chekurapadu, Prakasam District, Andhra Pradesh, Smt. Kaleeshabi attained proficiency in Nadhaswaram at the age of 5 under the able tutelage of her paternal uncle Sheik John Sahib. She started giving stage performances from the age of 9. After her marriage with her cousin Sheik Mahaboob Subhani in 1978, she had vocal training along with her husband under Sri K. Chandramouli, Principal, Government Sarada Sangeetha Kalasala, Kurnool, Andhra Pradesh. The couple got training from Ganakala Prapoorna, Dr. Sheik Chinna Moulana Saheb for 15 years and got acquaintance with the celebrated Thanjavur Bani. They as a couple have performed Nadhaswaram concerts in almost all famous Sabhas all over India. They have taken a vow to take our traditional art across the globe transcending the barriers of region, religion, language and faith and have lead their team to several places like Abu Dhabi, Brussels, Canada, Dubai, France, Germany, Japan, Malaysia, Sri Lanka, USA and UK.

3. Smt. Kaleeshabi Mahaboob and Sheik Mahaboob Subhani were awarded a Certificate of Merit in 2000 by Narada Gana Sabha, Chennai for their proficiency in Nadhaswaram. In recognition of the excellence achieved in the field of music, they were declared as the Asthana Vidwans of Sri Jagadguru Shankaracharya Mahasamsthanam Dakshinamnaya Sri Sharada Peetam, Sringeri in the august presence of His Holiness Jagadguru Shankaracharya Sri Sri Bharathi Theertha Mahaswamiji in 2001. They gave an hour long Nadhaswaram concert on 05.03.2005 in front of Dr. A.P.J. Abdul Kalam, the then President of India, as a part of Indradhanush, a performing art series in the Rashtrapathi Bhavan. To contribute their modest bit to the propagation of the richness of the Indian Culture, they gave a Nadhaswaram concert in the Festival held in Brussels by Indian Council for Cultural Relations from 05.10.2006 to 15.10.2006. They were blessed with the title Nadhaswara Nadharatnam by His Holiness Sri Kanchi Kamakoti Peetadhipathi Jagadguru Sri Shankaracharya Swamiji on 01.08.2007. They were placed in "Top Grade" in Nadhaswaram Duet by the Directorate General, All India Radio, New Delhi in 2010.

4. Playing their role in spreading out the aesthetic quality of the ritual music of South India Smt. Kaleeshabi Mahaboob and Sheik Mahaboob Subhani have offered a Nadhaswaram musical fare in Osaka, Japan. In recognition of their part in promotion and propagation of Puujyasri Narayana Tirtha compositions, they were conferred the title Sri Narayana Tirtha Seva Nirata and for their Yeoman Service to the field of Arts and Culture they were honoured by the Rasika Ranjana Sabha, Trichy in the year 2016.

5. Smt. Kaleeshabi Mahaboob and Sheik Mahaboob Subhani have received various honours and awards including Kalaimamani Award in 1994; Desiya Thamarai Award by Balaji television Chennai in 2000; Nadhaswara Kalanidhi by Clarinet Everest Sangeetha Kalanidhi Shri A.K.C. Natrajan in 2002; Dr. Thiruvengadu Subramania Pillai Centenary award by Director K. Subramanyam Memorial Trust Narada Gana Sabha and Brahma Gana Sabha in 2005; title Nadhaswara Chakravarthi by Violin Maestro Annavarabu Sri. Ramasamy and Clarinet Everest Sri. A.K.C. Natrajan in 2008; Star Achiever award from National Integrity Cultural Academy in 2009 etc. Apart from this Smt. Kaleeshabi has also received Vocational Excellence Award by Rotary International in 2010; Swarna Ratna Award from the Inner Wheel Club of Nanganallur in 2015; Women Achievers Award by Ladies Circle India in 2002 in appreciation of her outstanding achievements in music.



## श्रीमती कालीषाबि मैहबूब

श्रीमती कालीषाबि मैहबूब और उनके पति शेख मेहबूब सुबानि दोनों नादस्वरम विद्वान हैं। वे दोनों ही संगीत परिवारों के वारिस हैं।

2. आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के चेकूरपाडु में 20 दिसंबर, 1958 को जन्मी, श्रीमती कालीषाबि मैहबूब ने अपने चाचा शेख जॉन साहेब के सुयोग्य संरक्षण में 5 साल की उम्र में ही नादस्वरम में दक्षता प्राप्त कर ली थी। उन्होंने 9 वर्ष की आयु से मंच पर प्रस्तुति देना शुरू कर दिया था। 1978 में, अपने मामा के बेटे शेख मेहबूब सुबानि से विवाह करने के बाद उन्होंने अपने पति के संग आंध्र प्रदेश के करनूल स्थित राजकीय शारदा संगीत कलाशाला के प्राचार्य, श्री के. चंद्रमौली से गायन की शिक्षा हासिल की। दंपति ने 15 वर्षों तक गणकला परपूर्ण, डॉ. शेख चिन्ना मौलाना साहेब से शिक्षा हासिल की और प्रख्यात तंजावुर बानी का ज्ञान प्राप्त किया। दोनों पति-पत्नी ने पूरे भारत के लगभग सभी नामी संगीत समारोह में नादस्वरम वादन किया है उन्होंने एक संकल्प लिया है कि वे अपनी इस पारंपरिक कला को क्षेत्र, धर्म, भाषा और पंथ की बाधाओं से परे संपूर्ण विश्व में स्थापित करेंगे और वह अपनी टीम को आबूधाबी, ब्रसेल्स, कनाडा, दुबई, फ्रांस, जर्मनी, जापान, मलेशिया, श्रीलंका, अमेरिका और यूके जैसे अनेक स्थानों पर लेकर गए हैं।

3. श्रीमती कालीषाबि मैहबूब और शेख मेहबूब सुबानि को नादस्वरम में उनकी दक्षता के लिए नारद गण सभा चेन्नै द्वारा वर्ष 2000 में उत्कृष्टता प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था। संगीत के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के सम्मान स्वरूप उन्हें 2001 में परम पूज्य जगद्गुरु शंकराचार्य श्री श्रीभारती तीर्थ महास्वामीजी की पावन उपस्थिति में श्री जगद्गुरु शंकराचार्य महासंस्थान दक्षिणमान्य श्री शारदापीठम, शृंगेरी का अस्थाना विद्वान घोषित किया गया था। उन्हें 05.03.2005 में, राष्ट्रपति भवन में इंद्रधनुष कार्यक्रम के भाग के रूप में, भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के सम्मुख एक घंटे तक नादस्वरम वादन का अवसर मिला। भारतीय संस्कृति की समृद्धि के प्रचार-प्रसार में उनके योगदान के लिए उन्हें 05.10.2006 से 15.10.2006 तक भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा ब्रसेल्स में आयोजित महोत्सव में नादस्वरम संगीत समारोह में प्रदर्शन करने का मौका मिला। उन्हें 01.08. 2007 को परम पूज्य श्री कांची कामकोटि पीठाधिपति जगद्गुरु श्री शंकराचार्य स्वामी जी द्वारा नादस्वर नादरत्नम उपाधि प्रदान की गई। उन्हें 2010 में महानिदेशालय, आकाशवाणी, नई दिल्ली द्वारा नादस्वरम युगल की शीर्ष श्रेणी में रखा गया है।

4. दक्षिण भारत के पारंपरिक और सुरुचिपूर्ण संगीत के प्रचार-प्रसार में भूमिका निभाते हुए, श्रीमती कालीषाबि मैहबूब और शेख मेहबूब सुबानि ने ओसाका जापान में नादस्वरम संगीत मेले के आयोजन की पेशकश की है। पूज्य श्री नारायण तीर्थ की कृतियों के प्रोत्साहन और प्रचार में उनकी भूमिका के सम्मान स्वरूप उन्हें श्री नारायण तीर्थ सेवा निरत की उपाधि प्रदान की गई है और कला व संस्कृति के क्षेत्र में उनकी निःस्वार्थ सेवा के लिए उन्हें वर्ष 2016 में रसिक रंजन सभा त्रिची द्वारा सम्मानित किया गया था।

5. श्रीमती कालीषाबि मैहबूब और शेख मेहबूब सुबानि को अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं जिनमें 1994 में कलायमामणि पुरस्कार; 2000 में बालाजी टेलीविजन चेन्नै द्वारा देसिया तमाराई पुरस्कार; 2002 में क्लेरिनेट एवरेस्ट संगीत कलानिधि श्री ए.के.सी. नटराजन द्वारा नादस्वर कलानिधि; 2005 में निदेशक के. सुब्रमण्यम मेमोरियल ट्रस्ट नारद गण सभा और ब्रह्मा गण सभा द्वारा डॉक्टर तिरुवेंगडू सुब्रमण्यम पिल्लै शताब्दी पुरस्कार; 2008 में वायलिन पंडित अन्नाब्रबु श्रीरामसामी और क्लेरिनेट एवरेस्ट श्री ए.के.सी. नटराजन द्वारा नादस्वर चक्रवर्ती उपाधि; 2009 में नेशनल इंटीग्रिटी कल्चरल एकेडमी द्वारा स्टार अचीवर पुरस्कार आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, श्रीमती कालीषाबि को 2010 में रोटरी इंटरनेशनल द्वारा वोकेशनल एक्सीलेंस अवार्ड; 2015 में नंगानल्लूर के इनर व्हील क्लब की ओर से स्वर्ण रत्न पुरस्कार; संगीत में उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए 2002 में लेडीज सर्कल इंडिया द्वारा वीमेन अचीवर्स पुरस्कार भी प्रदान किया गया है।

## Padma Shri



### **SHRI SHEIK MAHABOOB SUBHANI**

Shri Sheik Mahaboob Subhani and his spouse Smt. Kaleeshabi Mahaboob are Nadhaswaram Vidwans. They both are descendants of musical families.

2. Born on 23<sup>rd</sup> August, 1954 in Peda Kotapall, Prakasam District, Andhra Pradesh, Sheik Mahaboob Subhani belongs to the 8<sup>th</sup> generation inheriting the legacy. His maternal grandfather is Late Nadhabrahma, Nadhaswara Ganakala Prapoorna Janab Sheik Chinna Peer Saheb from Chilakaluripet, Andhra Pradesh. At the age of seven, he attained proficiency in Nadhaswaram under the able tutelage of his father Kotapalli Sheik Meera Saheb. He married his cousin Kaleeshabi in 1978. Both had Nadhaswaram training under Sheik John Sahib and vocal training under Sri K. Chandramouli, Prinicpal, Government Sarada Sangeetha Kalasala, Kurnool, Andhra Pradesh. They got training from Ganakala Prapoorna, Dr. Sheik Chinna Moulana Saheb for 15 years and got acquaintance with the celebrated Thanjavur Bani. They as a couple have performed Nadhaswaram concerts in almost all famous Sabhas all over India. They have taken a vow to take our traditional art across the globe transcending the barriers of region, religion, language and faith and have lead their team to several places like Abu Dhabi, Brussels, Canada, Dubai, France, Germany, Japan, Malaysia, Sri Lanka, USA and UK.

3. Sheik Mahaboob Subhani and Smt. Kaleeshabi Mahaboob were awarded a Certificate of Merit in 2000 by Narada Gana Sabha, Chennai for their proficiency in Nadhaswaram. In recognition of the excellence achieved in the field of music, they were declared as the Asthana Vidwans of Sri Jagadguru Shankaracharya Mahasamsthanam Dakshinamnaya Sri Sharada Peetam, Sringeri in the august presence of His Holiness Jagadguru Shankaracharya Sri Sri Bharathi Theertha Mahaswamiji in 2001. They gave an hour long Nadhaswaram concert on 05.03.2005 in front of Dr. A.P.J. Abdul Kalam, the then President of India, as a part of Indradhanush, a performing art series in the Rashtrapathi Bhavan. To contribute their modest bit to the propagation of the richness of the Indian Culture, they gave a Nadhaswaram concert in the Festival held in Brussels by Indian Council for Cultural Relations from 05.10.2006 to 15.10.2006. They were blessed with the title Nadhaswara Nadharatnam by His Holiness Sri Kanchi Kamakoti Peetadhipathi Jagadguru Sri Shankaracharya Swamiji on 01.08.2007. They were placed in "Top Grade" in Nadhaswaram Duet by the Directorate General, All India Radio, New Delhi in 2010.

4. Playing their role in spreading out the aesthetic quality of the ritual music of South India Sheik Mahaboob Subhani and Smt. Kaleeshabi Mahaboob have offered a Nadhaswaram musical fare in Osaka, Japan. In recognition of their part in promotion and propogation of Pujuyasri Narayana Tirtha compositions, they were conferred the title Sri Narayana Tirtha Seva Nirata and for their Yeoman Service to the field of Arts and Culture they were honoured by the Rasika Ranjana Sabha, Trichy in the year 2016.

5. Sheik Mahaboob Subhani and Smt. Kaleeshabi Mahaboob have received various honours and awards including Kalaimamani Award in 1994; Desiya Thamarai Award by Balaji television Chennai in 2000; Nadhaswara Kalanidhi by Clarinet Everest Sangeetha Kalanidhi Shri A.K.C. Natrajan in 2002; Dr. Thiruvengadu Subramania Pillai Centenary award by Director K. Subramanyam Memorial Trust Narada Gana Sabha and Brahma Gana Sabha in 2005; title Nadhaswara Chakravarthi by Violin Maestro Annavarabu Sri. Ramasamy and Clarinet Everest Sri. A.K.C. Natrajan in 2008; Star Achiever award from National Integrity Cultural Academy in 2009 etc.



### श्री शेख मेहबूब सुबानि

श्री शेख मेहबूब सुबानि और उनकी पत्नी श्रीमती कालीषाबि मैहबूब दोनों नादस्वरम विद्वान हैं। वे दोनों ही संगीत परिवारों के वंशज हैं।

2. आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के पेडा कोटापाल्ल में 23 अगस्त, 1954 को जन्मे, श्री शेख मेहबूब सुबानि विरासत संभालने वाले आठवें वारिस हैं। उनके नाना स्वर्गीय नादब्रह्म, नादस्वर गणकला परपूर्ण जनाब शेख चिन्ना पीर साहेब चिलाकलूरीपेट, आंध्रप्रदेश के थे। सात वर्ष की उम्र में ही, उन्होंने अपने पिता कोटापल्ली शेख मीरा साहेब के सुयोग्य संरक्षण में नादस्वरम में दक्षता प्राप्त कर ली थी। उन्होंने 1978 में अपनी बुआ की बेटी कालीषाबि से विवाह किया। दोनों ने शेख जॉन साहेब से नादस्वरम और आंध्र प्रदेश के करनूल स्थित राजकीय शारदा संगीत कलाशाला के प्राचार्य, श्री के. चंद्रमौली से गायन की शिक्षा हासिल की। दोनों ने 15 वर्षों तक गणकला परपूर्ण, डॉ. शेख चिन्ना मौलाना साहेब से शिक्षा हासिल की और प्रख्यात तंजावुर बानी का ज्ञान प्राप्त किया। पति-पत्नी के तौर पर उन्होंने भारत के लगभग सभी नामी संगीत समारोह में नादस्वरम वादन किया है। उन्होंने एक संकल्प लिया है कि वे अपनी इस पारंपरिक कला को क्षेत्र, धर्म, भाषा और पंथ की बाधाओं से परे पूरी दुनिया में स्थापित करेंगे और वे अपने दल को आबूधाबी, ब्रसेल्स, कनाडा, दुबई, फ्रांस, जर्मनी, जापान, मलेशिया, श्रीलंका, अमेरिका और यूके जैसे अनेक स्थानों पर लेकर गए हैं।

3. शेख मेहबूब सुबानि और श्रीमती कालीषाबी मैहबूब को नादस्वरम में उनकी दक्षता के लिए नारद गण सभा चेन्नै द्वारा 2000 में उत्कृष्टता प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था। संगीत के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के सम्मान स्वरूप उन्हें 2001 में परम पूज्य जगद्गुरु शंकराचार्य श्री श्रीभारती तीर्थ महास्वामीजी की पावन उपस्थिति में श्री जगद्गुरु शंकराचार्य महासंस्थान दक्षिणमान्य श्री शारदापीठम, श्रंगेरी के अस्थाना विद्वान घोषित किया गया था। उन्हें राष्ट्रपति भवन में इंद्रधनुष कार्यक्रम के भाग के रूप में, 05.03.2005 को, भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति, डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के सम्मुख एक घंटे तक नादस्वरम वादन का अवसर मिला। भारतीय संस्कृति की समृद्धि के प्रचार-प्रसार में उनके योगदान के लिए उन्हें 05.10.2006 से 15.10.2006 तक भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा ब्रसेल्स में आयोजित महोत्सव में नादस्वरम संगीत समारोह में प्रदर्शन करने का मौका मिला। उन्हें 01.08.2007 को परम पूज्य श्री कांची कामकोटि पीठाधिपति जगद्गुरु श्री शंकराचार्य स्वामी जी द्वारा नादस्वर नादरत्नम उपाधि प्रदान की गई। उन्हें 2010 में महानिदेशालय, आकाशवाणी, नई दिल्ली द्वारा नादस्वरम युगल की शीर्ष श्रेणी में रखा गया है।

4. दक्षिण भारत के पारंपरिक और सुरुचिपूर्ण संगीत के प्रचार-प्रसार में भूमिका निभाते हुए, श्रीमती कालीषाबि मैहबूब और शेख मेहबूब सुबानि ने ओसाका जापान में नादस्वरम संगीत मेले के आयोजन की पेशकश की है। पूज्य श्री नारायण तीर्थ की कृतियों को बढ़ावा देने और प्रचार में उनकी भूमिका के सम्मान स्वरूप उन्हें श्री नारायण तीर्थ सेवा निरत की उपाधि प्रदान की गई है और कला व संस्कृति के क्षेत्र में उनकी निःस्वार्थ सेवा के लिए उन्हें वर्ष 2016 में रसिक रंजन सभा त्रिची द्वारा सम्मानित किया गया था।

5. शेख मेहबूब सुबानि और श्रीमती कालीषाबि मैहबूब को अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिनमें 1994 में कलायमामणि पुरस्कार; 2000 में बालाजी टेलीविजन चेन्नै द्वारा देसिया तमाराई पुरस्कार; 2002 में क्लेरिनेट एवरेस्ट संगीत कलानिधि श्री ए.के.सी. नटराजन द्वारा नादस्वर कलानिधि; 2005 में निदेशक के. सुब्रमण्यम मेमोरियल ट्रस्ट नारद गण सभा और ब्रह्मा गण सभा द्वारा डॉक्टर तिरुवेंगडू सुब्रमण्यम पिल्लै शताब्दी पुरस्कार; 2008 में वायलिन पंडित अन्नावरु श्रीरामसामी और क्लेरिनेट एवरेस्ट श्री ए.के.सी. नटराजन द्वारा नादस्वर चक्रवर्ती उपाधि; 2009 में नेशनल इंटीग्रिटी कल्चरल एकेडमी द्वारा स्टार अचीवर पुरस्कार आदि शामिल हैं।